

OBL:HO:SEC:00:

BSE Limited
Corporate Relation Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunga BuildingPhiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Stock Code - 530365

National Stock Exchange of India Ltd.

New Delhi: 22.07.2022

Exchange Plaza,

Plot No. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E)

Mumbai-400 051

Stock Code: ORIENTBELL

Sub: Newspaper Advertisements - Unaudited Financial Results of the company

for the 1st Quarter ended June 30, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisements of Unaudited Financial Results of the company for the 1st Quarter ended June 30, 2022 published in the following newspapers on 22nd July, 2022:

- 1. English Daily "Business Standard" Mumbai edition, (Annexure "A")
- 2. English Daily "Business Standard" Delhi edition, (Annexure "B")
- 3. Hindi Daily "Business Standard" Delhi edition, (Annexure "C")

The same shall also be available under Investors Section of the Company's website www.orientbell.com.

This is for your information and record.

Yours faithfully, For Orient Bell Ltd.

YOGESH Digitally signed by YOGESH MENDIRATTA Date: 2022.07.22 19:20:20 +05'30'

Yogesh Mendiratta Company Secretary & Head-Legal

Encl: As Above.

(Face value of ₹ 1/- each) (*not annualised):

Basic and Diluted (Refer Note:a)

RP-Sanjiv Goenka Group Growing Legacies

PCBL Limited

(Formerly known as Phillips Carbon Black Limited) Registered Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001. CIN: L23109WB1960PLC024602 Tel: +91 33 6625 1461-64, Fax: +91 33 2248 0140/2243 6681, E-mail: pcbl@rpsg.in, Web: www.pcblltd.com

Extract Of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 (₹ In Crores except as otherwise stated) Standalone Consolidated 3 months Year Corresponding 3 months Year Corresponding SI. **Particulars** 3 Months 3 Months No. ended ended ended ended ended ended 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 Total Income from operations 1,420.29 4,473.15 1,007.18 1,420.77 4,475.01 1,007.63 2 Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) 160.46 532.34 130.45 160.84 531.57 130.57 Net Profit / (Loss) for the period before tax 3 (after exceptional items) 160.46 532.34 130.45 160.84 531.57 130.57 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 125.91 427.14 104.31 126.29 426.34 104.47 113.50 476.36 137.95 115.04 477.86 5 Total comprehensive income for the period 139.14 6 Paid-up Equity Share Capital (Shares of ₹1/- each) (Refer Note:a) 37.75 37.75 34.47 37.75 37.75 34.47 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) 2,567.16 1.892.70 2,576.24 1,900.99 2.567.16 2,576.24 8 Earnings Per Share (EPS)

Notes:

Place: Kolkata

Date : 21 July, 2022

a) Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders,the Company has sub divided its each equity share of face value ₹ 2/- (Rupees Two only) fully paid up ,into 2 (two) equity shares of ₹ 1/- (Rupee One) each fully paid-up, effective from April 13, 2022. This has been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33-Earnings Per Share.

11.84

3.03*

3.34*

11.81


3.34*

b) The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the quarter ended 30th June, 2022 are available on the Company's website (www.pcblltd.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and BSE Limited (BSE) (www.bseindia.com).

> By Order of the Board Kaushik Roy Managing Director DIN: 06513489

3.03*

PCBL





EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

				(₹in lakh)		
			Consolidated			
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431		
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	931	(961)	3,514		
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	931	(961)	3,514		
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	700	(512)	3,219		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	712	(485)	3,267		
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of₹10/- each)	1,444	1,437	1,443		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	27,035		
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)					
	a) Basic (amount in ₹)	4.85	(3.57)	22.36		
	b) Diluted (amount in ₹)	4.75	(3.57)	22.04		

Notes:

1. Summarised Standalone Un-Audited Financial Performance of the Company is as under:

(₹in lakh)

		Standalone			
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431	
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	908	(952)	3,399	
3	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	676	(503)	3,104	
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	688	(476)	3,152	

- 2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 21st July, 2022. The financial results for the quarter ended June 30, 2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company
- 3. The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly financial results is available on the stock exchange websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website at https://www.orientbell.com.
- 4. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

Place: New Delhi Date : 21st July 2022 For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited Madhur Daga **Managing Director**

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546 Registered Office: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P. Corporate Office: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046





HINDUSTAN ZINC LIMITED

Regd Office: Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004 PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com



STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(₹ in Crore, except as stated) PARTICULARS Quarter ended Year ended **30.06.2022** 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 Unaudited Audited Unaudited Audited Total income from operations 9,074 6,880 30,656 9,697 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/o 4,672 4.357 3,157 14,234 Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/o 4,357 3,023 4,672 14,100 Extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/o 3.092 2.928 1.983 9,629 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit fo the period (after tax) and Other Comprehensive Income (afte 3,523 2,858 1,981 9,574 6 Paid up Equity Share Capital 845 845 845 7 Reserves 36,960 33,436 33,450 33,436 8 Net Worth 37,805 34,281 34,295 34,281 9 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 2,815 2,823 6,653 2,823 0.07 0.08 0.19 10 Debt Equity Ratio 0.08 Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations 11 Basic: 7.32 6.93 4.69 22.79 7.32 6.93 4.69 22.79 12 Debt Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02 131.68 40.68 6.64 13 Interest Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02 131.68 40.68 65.69

- 1) The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited("the company") and its subsidiaries("the Group") for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on July 21, 2022 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the company.
- 2) During the previous year ended March 31, 2022, the company had incorporated its wholly owned subsidiaries namely "Hindustan Zinc Alloys Private Limited" (HZAPL) and "Vedanta Zinc Football & Sports Foundation" (Section 8 company), pursuant to which the Company had prepared its first consolidated financial results during the quarter ended December 31 2021. Accordingly, the comparative figures presented in the consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 represent standalone figures of the Holding Company.
- 3) Key Standalone Financial information:

(₹ in Crore, except as stated)					
PARTICULARS	Quarter ended		Year ended		
	30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021		30.06.2021	31.03.2022	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
Total income from operations	9,697	9,074	6,880	30,656	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,673	4,358	3,157	14,235	
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,673	4,358	3,023	14,101	
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,093	2,929	1,983	9,630	
The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolidated Financial Results filed with the					

- Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results and additional disclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 are available on the Exchange websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.hzlindia.com.
- The Board of Directors on July 13, 2022 have declared an interim dividend of ₹ 21 per equity share aggregating to ₹ 8,873 crore, with the record date of July 21, 2022.
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (National Stock Exchange(NSE) and Bombay Stock Exchange(BSE)) and can be accessed on the URL www.nseindia.com & www.bseindia.com respectively.
- 7) Figures for previous year and quarter have been revised or reclassifed, wherever necessary, for consistency,
- 8) The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures for the full financial year ended March 31, 2022 and nine months unaudited published figures up to December 31, 2021.

By Order of the Board

Arun Misra

Date: July 21, 2022 Place: Udaipur

CEO & Whole-time Director









RP-Sanjiv Goenka Group **Growing Legacies**

PCBL Limited

(Formerly known as Phillips Carbon Black Limited) Registered Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001. CIN: L23109WB1960PLC024602

Extract Of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 Standalone Consolidated 3 months Year Corresponding 3 months Year SI. **Particulars** 3 Months 3 Months No. ended ended ended ended ended ended 30.06.2021 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 30.06.2022 31.03.2022 Total Income from operations 1,420.29 4,473.15 1,007.18 1,420.77 4,475.01 1,007.63 2 Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) 160.46 532.34 130.45 160.84 531.57 130.57 Net Profit / (Loss) for the period before tax 3 (after exceptional items) 160.46 532.34 130.45 160.84 531.57 130.57 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 125.91 427.14 104.31 126.29 426.34 104.47 113.50 476.36 137.95 115.04 477.86 139.14 5 Total comprehensive income for the period 6 Paid-up Equity Share Capital (Shares of ₹1/- each) (Refer Note:a) 37.75 37.75 34.47 37.75 37.75 34.47 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) 2,567.16 2,567.16 1,892.70 2,576.24 1,900.99 2,576.24 8 Earnings Per Share (EPS) (Face value of ₹ 1/- each) (*not annualised):

Notes:

Place: Kolkata

Date : 21 July, 2022


Basic and Diluted (Refer Note:a)


a) Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders,the Company has sub divided its each equity share of face value ₹ 2/- (Rupees Two only) fully paid up ,into 2 (two) equity shares of ₹ 1/- (Rupee One) each fully paid-up, effective from April 13, 2022. This has been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33-Earnings Per Share.

11.84

3.34*

b) The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the quarter ended 30th June, 2022 are available on the Company's website (www.pcblltd.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and BSE Limited (BSE) (www.bseindia.com).







EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS EAR THE CHARTER ENDER HIME 20, 2022

FUN THE QUANTER ENDED JUNE 30, 2022							
				(₹in lakh)			
			Consolidated				
S. No	Particulars .	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022			
		Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431			
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	931	(961)	3,514			
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	931	(961)	3,514			
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	700	(512)	3,219			
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	712	(485)	3,267			
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of₹10/- each)	1,444	1,437	1,443			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-		27,035			
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)						
	a) Basic (amount in ₹)	4.85	(3.57)	22.36			
	b) Diluted (amount in ₹)	4.75	(3.57)	22.04			

Notes:

1. Summarised Standalone Un-Audited Financial Performance of the Company is as under:

(₹in lakh)

		Standalone			
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431	
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	908	(952)	3,399	
3	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	676	(503)	3,104	
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	688	(476)	3,152	

- 2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 21st July, 2022. The financial results for the quarter ended June 30,2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- 3. The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website at https://www.orientbell.com.
- 4. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

Place: New Delhi Date : 21st July 2022 For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited Madhur Daga **Managing Director**

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546 Registered Office: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P. Corporate Office: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046





HINDUSTAN ZINC LIMITED

Regd Office: Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004



PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(₹ in Crore, except as stated)

(₹ in Crore, except as stated)					
PARTICULARS	Q	uarter ended		Year ended	
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
Total income from operations	9,697	9,074	6,880	30,656	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,672	4,357	3,157	14,234	
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,672	4,357	3,023	14,100	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,092	2,928	1,983	9,629	
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,523	2,858	1,981	9,574	
Paid up Equity Share Capital	845	845	845	845	
Reserves	36,960	33,436	33,450	33,436	
Net Worth	37,805	34,281	34,295	34,281	
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	2,815	2,823	6,653	2,823	
Debt Equity Ratio	0.07	0.08	0.19	0.08	
Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations Basic: Diluted:	7.32 7.32	6.93 6.93	4.69 4.69	22.79 22.79	
				6.64	
,					
Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	130.02	131.68	40.68	65.69	
	Total income from operations Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid up Equity Share Capital Reserves Net Worth Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt Debt Equity Ratio Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations Basic: Diluted: Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	30.06.2022 Unaudited Total income from operations 9,697 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 4,672 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,092 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,092 Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid up Equity Share Capital 845 Reserves 36,960 Net Worth 37,805 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 2,815 Debt Equity Ratio 0.07 Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations Basic: 7.32 Diluted: 7.32 Debt Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02	30.06.2022 31.03.2022 Unaudited Audited Total income from operations 9,697 9,074 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 4,672 4,357 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 4,672 4,357 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,092 2,928 Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid up Equity Share Capital 845 845 Reserves 36,960 33,436 Net Worth 37,805 34,281 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 2,815 2,823 Debt Equity Ratio 0.07 0.08 Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations 8asic : 7.32 6.93 Diluted: 7,32 6.93 Debt Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02 131.68	30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021	

NOTES:

- The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited("the company") and its subsidiaries("the Group") for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on July 21, 2022 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the company.
- 2) During the previous year ended March 31, 2022, the company had incorporated its wholly owned subsidiaries namely "Hindustan Zinc Alloys Private Limited" (HZAPL) and "Vedanta Zinc Football & Sports Foundation" (Section 8 company), pursuant to which the Company had prepared its first consolidated financial results during the quarter ended December 31 2021. Accordingly, the comparative figures presented in the consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 represent standalone figures of the Holding Company.
- 3) Key Standalone Financial information:

	(₹ in Crore, exc	
PARTICULARS Quarter ended		Year ended	
30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021		31.03.2022	
Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
9,697	9,074	6,880	30,656
4,673	4,358	3,157	14,235
4,673	4,358	3,023	14,101
3,093	2,929	1,983	9,630
	30.06.2022 Unaudited 9,697 4,673	Quarter ended 30.06.2022 31.03.2022 Unaudited Audited 9,697 9,074 4,673 4,358 4,673 4,358	30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 Unaudited Audited Unaudited 9,697 9,074 6,880 4,673 4,358 3,157 4,673 4,358 3,023

- The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results and additional disclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 are available on the Exchange websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.hzlindia.com.
- The Board of Directors on July 13, 2022 have declared an interim dividend of ₹ 21 per equity share aggregating to ₹ 8,873 crore, with the record date of July 21, 2022.
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (National Stock Exchange(NSE) and Bombay Stock Exchange(BSE)) and can be accessed on the URL
- $www.nseindia.com\,\&\,www.bseindia.com\,respectively.$ 7) Figures for previous year and quarter have been revised or reclassifed, wherever necessary, for consistency.
- 8) The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures for the full financial year ended March 31, 2022 and nine months unaudited published figures up to December 31, 2021.

By Order of the Board

Date: July 21, 2022 Place: Udaipur

Arun Misra **CEO & Whole-time Director**

















हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजी. कार्यालय : 09 कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विडार, नई दिल्ली—110057 HeroHousing Ph: 011 49267000, Toll Free No: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com

Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148

Finance
Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148

#IJI सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती, 2002 ("नियमावती") के नियम 3 के साथ पाउत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनयम") की धारा 13(2) के तहत

च्रिक, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के ग्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने पहले ही नियमावली के नियम 3 के साथ पाउत धारा 13(12) के तहत प्रवर्त्त शक्तियों के अनुपालन में और अधिनयम के तहत नीचे दिए गए विवरण अनुसार संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीवर संबंधित मांग सूचना/ओं में वर्णित राशियों का भूगतान करने के लिए यहां नीचे सूचीबद्ध ("देयताएं(ऑ)/ कानूनी चारिस(यां)/ कानूनी प्रतिनिध्(आं) को बुलाने के लिए अधिनयम की धारा 13(2) के तहत नीचे विर्णत मांग सूचनाएं जारी की थी। उक्त सूंचनाओं की प्रतियां पंजीकृत पोस्ट ए.डी. द्वारा ये चुकी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और उक्त देयताएं(ऑ)/ कानूनी वारिस(यों)/ कानूनी प्रतिनिध्(आं), यिद वे इच्छुक हैं, सामान्य कार्यालय घंटों के तौरान किसी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति एकत्र कर सकते हैं। उक्त के संबंध में, एतद्वाराण एक बार फिर, उक्त देयताएं(ऑ)/ कानूनी वारिस(यों)/ कानूनी प्रतिनिधि(आं) के उक्त देयता(ओं) के उक्त देयता(ओं) होए पिचादित ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेजी/ लिखित, यदि कोई है के साथ पठित भुगतान और /या वस्त्रियों को तिथ तक कोलम (अं) में नीचे निर्देशित राशियों का संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 80 दिनों के भीतर एवएचएफएल को मुगतान करने के लिए सुखित किया जाता है। ऋण के देय पुनर्मुगतान के लिए प्रतिमृति के रूप में, मुनर्मी व्रतिप्त कर्मा के लिए प्रतिमृति के रूप में स्वारा को निर्वर को मित्र एवएचएफएल को मुगतान करने के लिए सुखित किया जाता है। ऋण के देय पुनर्मुगतान के लिए प्रतिमृति के का में, हिस्सी का संबंधित त्वना प्रचर्ति प्रवर्ती प्रचर्वी को किया के साथ के प्रवर्ती को लिख के 80 दिनों के भीतर एवएचएफएल को मुगतान करने के लिए सुखित किया जाता है। ऋण के देय पुनर्मुगतान के लिए प्रतिमृति के रूप में, हिस्सी को स्वारा के साथ कित के साथ के प्रवर्ती के का स्वारात को निर्ताल को निर्वर को निर्ताल को निरस्त का निरस्त का नि

इसि एचएचएफएल के। गरेवा रखा गई था।						
ऋण	देयता(ओं) / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि के नाम	नीचे तिथियों अनुसार	मांगू	एनपीए		
खाता सं.	🖊 कानूनी प्रतिनिधि के नाम	कुल बकाया देये रु.	सूचना तिथि	तिथि		
HHFNSPHOU	मोहम्मद इरफान, हुमा प्रवीण	12 जुलाई, 2022	14 जुलाई	06 मई		
20000010320		तक रु. 19,70,338 / —	2022	2022		

प्र<mark>तिभूतित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / गिरवी संपत्तियों का विवरण :</mark> पहली मंजिल पर निर्मित के सभी भाग व पार्सल, सीलिंग लेवल के विस्तार तक छत अधिकारों के बिना, संपत्ति बियरिंग नं. 13–ए, त्तमा माग व पासल, सालग लवल क विस्तार तक छत अधिकारों के बिना, संपत्ति बियरिंग नं. 13—ए. खसरा नं. 1332 / 691 / 442, में से, गांव—उलधनपुर, गली नं. 3, कांति नगर एक्स, इलाका शाहदरा दिल्ली 110051 बिक्री डीड में वर्णित आनुपातिक भूमि अधिकार व कॉमन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं सित तक तम् तम के की विद्याओं और अन्य सुविधाओं सित तक तम भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकरों के सहित सीमाएं: पूर्व : पैसेज 20 फुट चौड़ा, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति, उत्तर: दूसरों की संपत्ति, वित्तर: दूसरों की संपत्ति की संपत्ति संपति संपति संपत्ति संपति संपत

HHFDFLHOU गरमीत कौर कमल सरेंद्र 12 जलाई 2022 14 जलाई 7 जन

	3 3	. 34,	1-1-25-11-05	٠٠٠
19000001648		तक रु. 32,66,117 / —		2022
प्रतिभूतित परिसं	पत्तियों / अचल संपत्तियों / गिर	वी संपत्तियों का विवरण	: पहली मंजिल प	र निर्मित
	ल, फ्रीहोल्ड संपत्ति बियरिंग न्यू न			
छत् / टेरिस अधि	ोकारों के बिना, खसरा नं. 2739 /	⁷ 616 मिन क भाग, गांव-	-बसई दारापुर, स	(दर्शन पाव
	015 क्षेत्र 63.1 / 4 वर्ग यार्ड बि र्व			
	न्य सुविधाओं सहित् सीमाएं : पूर्व :	: दूसरों की संपत्ति, पश्चि	म : दूसरों की संप	त्ति, उत्त
गली 15 फुट, दर्धि	क्षेण : दूसरों की संपत्ति			
HHFDELHOU	मोहन चंद, दीपक	12 जुलाई, 2022	14 जुलाई	7 जून
19000002268,	सत्यवती, रोहित अत्यावली	तक रु. 14,83,249 / —	2022	2022
HHEDELL AP		11-11 11 1-1,000,22-107		

HHFDELLAF प्रतिभूतित परिसंपत्तियाँ / अचल संपत्तियाँ / गिरवी संपत्तियाँ का विवरण : पहली मंजिल पर निर्मित के सभी भाग व पार्सल, छत अधिकारों के बिना, कॉमन पैसेज, स्टेयरकेंस और मॉमटी पर वाटर टैंक के कॉमन स्पेस के साथ, संपृत्ति बियरिंग नं. 650 ए (ओल्ड नं. 375) का भाग, खसरा नं. 361 में से, गांव सर्लीमपुर ाजरा मादीपर दिल्ली राज्य ऋषि नगर के नाम से जात कॉलोनी शंकर बस्ती दिल्ली 110034 **क्षेत्र ह** वर्ग यार्ड अर्थात् ४१.८ वर्ग मीटर उक्त संपत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों के सहित, सीमाएं : पूर्व

दूसरा का संपात्त पारवमः दूसरा का संपात्त, उत्तरः गला १५ फुट दावणः दूसरा का संपात्त						
HHFNSPHOU 21000015741	मोहित नारंग, हेमलता पत्नी प्रदीप कुमार, प्रदीप कमार	12 जुलाई, 2022 तक रु. 21,96,305 /—	14 जुलाई 2022	4 जून 2022		

प्रतिभृतित परिसंपत्तियों / **अचल संपत्तियों / गिरवी संपत्तियों का विवरण :** संपत्ति बियरिंग म्यूनिस्पि 11, शास्त्री नगर, दिल्ली—110052 निर्मित फ्रीडोल्ड के भाग के छत अधिकारों के विना ग्राज्ड र सभी भाग व पासंल, क्षेत्र 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.8 वर्ग मीटर उक्त संपत्ति के तहत भूमि के अधिकारों के सहित, सीमाएं : पूर्व : संपत्ति का भाग, पश्चिम : गली, उत्तर : दूसरों की संपत्ति, इन्हों की संपत्ति

. 'उक्त वर्णित संबंधित मांग सचना में विशेष रूप से वर्णित अनसार दर पर आगे के ब्याज. अतिरिक्त ब्याज "उक्त वांगत सबाबत मांग सूचना में ग्वाच रूप से वांगत अनुसार दर पर आगं के ब्याज, आतारक्त ब्याज मृगतान की तिथि / या वसूची की तिथि तक आकिस्मिक ब्यंय, लागत, शुक्कों आदि सहित। यदि उक्त देयता(ऑ) उपरोक्त अनुसार एचएचएफएल को मुगतान करने में असफल रहते हैं, तब एचएचएफएल लागतों व परिणाम अनुसार उक्त देयता(ऑ)/ कानूनी वारिस(ऑ)/ कानूनी प्रतिनिधि(यॉ) के जोखिम पर उक्त अधिनयम की धारा 13(4) व लागू नियमों के तहत उक्त प्रतिभूति परिसंपत्ति(यॉ)/ अचट स्थानि(यॉ)के विकटन कार्याच्या कर्याम् संपत्ति(यों)के विरूद्ध कार्यवाही करेंगा ।

तनारपाला)च प्रचारा क्याना करणा । देयता(ओं) / कानुनी वारिस(ओं) / कानुनी प्रतिनिधि(यों) एचएचएफएल की पर्व लिखित अनमति के बिक्री प्यता(जा) की मार्गास्त्राजा) को को में जा आपता है। बीजा या अन्यथा द्वारा उपरोक्त प्रतिभृति परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) को हरतांतरण करने के लिं उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं। अधिनियम या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों में किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप या उल्लंधन अधिनियम के तहत दिए गए अनुसार कारावास या जुर्माने का पात्र होगा।

Canara Bank

🚃 🧗 सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

दिनांक 10.08.2022 को सम्पत्ति की ई-नीलामी ईएमडी जमा करने की ॲतिम तिथि 06.08.2022

क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी दिल्ली, डीडीए बिल्डिंग—1, वर्धमान टॉवर, प्रथम तल, पारस सिनेमा के पास, नेहरू प्लेस—110019 ईमेल: rosdelrec@canarabank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

तदहारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सचित किया जाता है। कि प्रतिभत्ति ऋणदाताओं को बंधक/दष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति। जिस पर केनरा बैंक के प्राधिकत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है। को "जहाँ है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन

बिक्री के विस्तुत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, जेपी रॉयले, प्रथम तल, # 218, द्वितीय मेन सम्पीज रोड (14वीं क्रॉस के पास) मल्लेश्वरम बंगलौर— 560003, वेबसाइट — www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com संपर्क व्यक्ति श्री प्रताप कांजीलाल / श्री डी.डी. पाखरे — 9832952602/8898418010 लेंड लाइन 080-23469665 ईमेल: ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई-नीलामी" को देखें।

आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत की ईएमडी राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में या नीचे वर्णित खाता नं. में आरटीजीएस / एनईएफटी / फंड ट्रास्फर के माध्यम से जमा कराई जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपोंइंटमेंट लेकर 05.08.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से साय 4.00 बजे के बीच सम्पत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र		कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकागा राशि	क. आरक्षित मूल्य (रु.) ख. धरोहर राशि (रु.) ग. बोली वृद्धि (रु.) घ. बिक्री सूचना की तिथि		ई-नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	ओखला औद्योगिक ईस्टेट शाखा (डीपी कोड–348)	मैसर्स आर.के. कंप्यूटर (उधारकता) प्रोप. रवींद्र कुमार गुप्ता, एलएससी 115, प्रथम तल, डीडीए मार्केट, डी और ई पॉकेट, सरिता विहार, नई दिल्ली —110076 रवींद्र कुमार गुप्ता (प्रोपराईटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार, फेज—1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा—121001 उ. रितु गुप्ता (गाउंटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार फेज—1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा—121001	हूँ, सरिता विहार, नई दिल्ली—110076 में स्थित, (सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास) दुकान का क्षेत्रफल 17.91 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर में — पार्किंग स्पेस, दक्षिण में — दुकान में प्रवेश, पूरब में — अन्य का दुकान, पश्चिम में — पश्चिम में — दुकान नं. 114 (भौतिक कब्जा)	11.10.2021 तक और दिनांक 12.10.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	b. 2,90,000/- c. 10,000/- d. 21-07-2021	खाता नं. 209272434 IFSC कोड: CNRB0000348	10-08-2022 दोपहर 11.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे के बीच 06.08.2022 अर्पा. 04.00 बजे तक

. इच्छुक बोलीदाता किसी भी अन्य विवरण श्री कुलदीप सक्सेना, मोबाईल नं. 09871778772, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, ओखला औद्योगिक ईस्टेट शाखा, नई दिल्ली, ईमेल cb19085@canarabank.com किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर

प्राधिकत अधिकारी, केनरा बैंक दिनांक 21-07-2022, स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.07.2022, स्थान : दिल्ली हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए orientbel **#ANewSpace**

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

				(₹in lakh)		
		Consolidated				
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431		
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	931	(961)	3,514		
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	931	(961)	3,514		
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	700	(512)	3,219		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	712	(485)	3,267		
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of₹10/- each)	1,444	1,437	1,443		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	27,035		
8	Earnings Per Share (of₹10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)					
	a) Basic (amount in ₹)	4.85	(3.57)	22.36		
	b) Diluted (amount in ₹)	4.75	(3.57)	22.04		

Notes:

1. Summarised Standalone Un-Audited Financial Performance of the Company is as under

0	(< in lawn					
		Standalone				
S. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Year Ended on 31-03-2022		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from Operations	15,450	8,672	65,431		
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	908	(952)	3,399		
3	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	676	(503)	3,104		
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	688	(476)	3,152		

- 2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 21st July, 2022. The financial results for the quarter ended June 30,2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company
- 3. The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website at https://www.orientbell.com
- 4. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s)

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited

Place: New Delhi Date: 21st July 2022

Madhur Daga **Managing Director**

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546 Registered Office: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P. Corporate Office: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046 C +91-11-47119100 | ⋈ investor@orientbell.com | ⊕ www.orientbell.com



माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के सम्ब्र, नई दिल्ली कंपनी याचिका संo. (सीएए) 74/एनबी/2021 कंपनीज अधिनियम, 2013 के मामले में और

आर कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की घारा 230 एवं े —— — ग्रेटिक गाक्धानों के मामले में समामेलन की योजना के मामले में

मैसर्स "मनोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड" (इसके बाद "हस्तांतरणकर्ता कंपनी" के रूप में संदर्भित) शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में 26 दिसम्बर, 1990 को निगमित किया गया था हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कोपोरेट पहचान संख्या U55100DL1990PTC042491। हस्तांतरणकर्ता कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-212, हरि नगर नई दिल्ली-110064 पर स्थित है।

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी)

आर भैसर्स "रेल एंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" (इसके बाद "हस्तांतरिती कंपनी" के रूप में संदर्भित) शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में 11 दिसम्बर, 1998 को निगमित किया गया था। हस्तांतरिती कंपनी की कोपोरेंट पहचान संख्या U74210DL1998PTC097413 । हस्तांतरिती कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-212, हरि नगर, नई दिल्ली-110064 पर स्थित है।

(हस्तांतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों

याचिका की सूचना कंपनीज़ अधिनियम, 2013, की घारा 230 से 232 के तहत, मनोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट निमिटेड के तहत, मनोज प्रॉपर्टीज प्राइवेट निमिटेड (''हस्तांतरणकर्ता कंपनी'') का रेल एंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''हस्तांतरिती कंपनी'') के साथ और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना की स्वीकृति हेतु एक याचिका उपर्युक्त याचिकाकर्त्ता कंपनियों द्वारा 10 जून, 2022 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कपंनी विधि अधिकर्णा, नई दिल्ली के समक्ष 22 अगस्त,

2022 निर्घारित की गई हैं।

कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन अथव विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपने नाम तथा पते के साथ अपनी इरादे की सूचना याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन से ज्यादा विलम्ब से नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उक्त याविका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शपथपत्र इस सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिए। याविका की प्रति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निर्घारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

दिनांकः 21.07.2022 हस्ता /-एन. के. शर्मा एन. के. शर्मा (याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता) सीएस—54 एंड 55, पहली मंजिल, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद—201010

Get insights

from wherever you are



The **ALL-NEW Business Standard App** Making Devices Smart, Insight Out.



from bit.ly/BS_app

Business Standard Insight Out



business-standard.com



कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के निय 8(६) के प्रावधानों के सह पठित नियम 9(१) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री नोटिस एत्दुद्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रॉ), गारंटर(रॉ) और/या बंधकदाता(ऑ) को नोटिस दिया जाता है, कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति(या) कोट

निहेंद्रा बैंक लिमिटेड (''आरक्षित लेनदार'') के पास बंधक /प्रभार के अधीन रखी गई हैं . जिनका कब्जा आरक्षित लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गर नाहित्र बंध लानिर्छ (आरावत लनवर) के पास बंधक / प्रभार के जधान रखा गईह , जिनको केजा आरावत लगायक क्राायकूत आधकारा द्वारा प्रभा केवा गईह, उनको ई-मी लाम कर्ज के कुछ भी है उसके साथ ' 30 अगस्ट ई, उनकी ई-मीलामी के माध्यम से ''जैसी है उसी आधार पर'' और ''जिस अवस्था में है उसी आधार पर'' और ''उसमें जो कुछ भी है उसके साथ '' 30 अगस्ट 2022 को (अ) मैसर्स सनबीम फुड प्रोडक्स कंपनी के खाते में 30 सितंबर, 2020 तक देय रुपये 7,52,98,465.97/– (रूपये सात करोड़ बावन लार अड्डानचे हजार चार सो पैंसर और सत्तानचे पेसे मात्र) और (ब) मैसर्स औम प्रकाश दिनेश कुमार के खाते में 30 सिम्बर 2020 तक देय रुपये 4, 87, 46, 282,34 (रुपये चार करोड़ सत्तासी लाख छियासी हजार दो सौ सत्तासी और चौतीस पैसा मात्र) सहित आगे ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अराधित लेनचार की हैसियत से उसे देय भुगतान प्राप्त होने तक चक्रवृद्धि ब्याज की संविद्यात्मक वर्ष पर कर्जवार (रो), नामतः **1. मेससं सनवीम फूड प्रोडक्यन कंपर्न** और **2. मैसर्स ओम प्रकाश कुमार (कर्जवारों) और 3. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 4. श्री मयंक बंसल, 5. श्रीमती मधु अग्रवाल, (गारंटरों और/या बंधककर्ताओं) क्र वस्तूली के लिये बिक्री की जाएगी। नीलामी पर रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/विवरणों, आरक्षित मूल्य, अग्रिम जमा राशि और नीलामी की अनुसूची का नीटें**

क्र.	बंधककर्ता/ओं	f - 1 1 + 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	आरक्षित मूल्य (भारतीय रूपयों में)		
सं.	के नाम	ई–नीलामी के लिए रखी गई अचल/चल संपत्ति का विवरण	अग्रिम राशि जमा		
1.	फूड प्रोडक्स कंपनी (श्री ओम प्रकाश की मालिकाना फर्म)	वह भूमि का प्लॉट यानी औद्योगिक प्लॉट सं. 63 ब्लॉक सं. बी में, फ्री होल्ड औद्योगिक निर्मित संपत्ति संग छत अधिकारो स्थित लॉरेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र के लेआऊट प्लान में दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली केनटोनमेंट बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सं. 451 दिनांकित 21–12–1972 और मापक 831 वर्ग गज सीमांकन निम्न प्रकार : उत्तर : प्लॉट सं. 65, पूर्व : रेल्वे लाइन, दक्षिण : प्लॉट सं. 64, पश्चिम : 7 फुट बौड़ी सड़क स्वामित्व संग सम्पूर्ण प्लांट और मशीनरी	(रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) रू. 1,15,00,000.00/– (रुपये एक करोड़ पंद्राह लाख मात्र)		
अघोहस्ताक्षरी अपने विवेकाधिकार पर और संभावित खरीदारों के अनुरोध पर, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 17 अगस्त–2022 को अर्पाह्र 03:00 बजे से अर्पाह्र 04:30 बजे के बीच कथित संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकता है।					

1. ई-नीलामी वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से केवल ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा 30 **अगस्त 2022 को प्रात: 11:00 बजे** र दोपहर 12:00 के बीच 5 मिनद के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी। ई—नीलामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए. इच्छक बोलीदाता मैसर्स सी— इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा तल, प्लॉट सं. 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा, संपर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान–98138–87931, ईमेल : ईमेल** delhi@c1india.com और support@bankéauctions.com, हेल्पलाइन सं. +91–124 4302020/2021/2022/2023/204, सर्पोट

मोबाइल सं. +91-729198 1124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं । 2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी के विवरणों और बिक्री के नियमों और शतों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.kotak.com/en/bar auctions.html और/याhttps://auctions.kotak.com पर भी देख सकते हैं।

3. नीलामी की बिक्री के विस्तृत नियमों और शतों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net के माध्यम से देखने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर कथित नियम और शतें बाध्यकारी होगी।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाक लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना आवश्यक है। 5. बोली लगाने के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्रों में भरे जाने चाहिए और उन्हें 29 अगस्त 2022 या उससे पहले सांय 4:00 बुजे तक पोर्टल पर बोलीदाता के कुंबाईसी दस्तावेजों

साथ केवल ऑनलाइन प्रस्तत / अपलोड किया जाएगा और विधिवत हस्ताक्षरित भरे गये बोली के प्रपत्र के साथ बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिर राजि प्रकार जाराज्ञ मे रहिए। अस्ता जाराज्ञ अस्त जाराज्ञ कर स्वार्थ के अन्य स्व बारावाराज्ञ क्या इसा स्वार्थ का Viswanadhan,akondi@kotak.com और Vikram.sharma@kotak.com की ईमेल पर भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता ''**मेसर्स सनवीम फूड प्रोडक् कम्पनी**'' के खाते में संपत्ति की खरीद के लिए ईमेल का विषय लिखेगा। 6. भावी बोलीदाता लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए, मैसर्स सी—1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उपरोक्त संपर्क नंबरों पर ऑनलाइ

7. अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/वित्त हस्तांतरण के माध्यम से खाता क्रमांक 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट 7. जाज जाना स्वीत पुरस्का जारणास्त्र (राष्ट्रका) नारक साथक प्राचन के किया जाता है। शाखा, मुंबई, आईएफएसमी कोड: KKBK000958 29 अगरत 2022 को सांव: 04:00 व वने तक या उससे पहले जमा की जाएगीए (राईएफटी/आस्टीजीएस/फंड ट्रांसफर केवल इच्छुक बोलीदाता/ओं के खाते से किया जाएगा किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी जमा करने और /या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेजी को प्रस्तुत करने में विलंब के मामले में प्राधिकृत अधिकारी/बोली मागीदारी और पारस्परिक बोली प्रक्रिया को अधिकतम करने के लिए, अपने विवेकाधिकार पर और संतुष्टि

पर. किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कट ऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकता है। ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तत की गई कोई र बोली स्वत: निरस्त हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मुल्य आरक्षित मुल्य के बराबर और /या उससे अधिक होगा और बोली की प्रक्रिया के दौरान . बोली लगाने वाले बोलीदाता आगे की बोलिय ,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे

9. यदि ई–नीलामी की कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर कोई बोली लगाई जाती है, तब समापन का समय अपने आप बढ़ जाएगा और तुरंत उस समय व अन्य 5 मिनटों तक बढ़ा दिया जाएगा

10. सफल बोली लगाने वाले को ई—नीलामी बिक्री की कार्यवाही के समापन पर या ई—नीलामी के दिन की समाप्ति के बाद अगले कार्यदिवस उच्चतम बोली राशि (पहले र 10. सफल बोली लगाने वाले को हूँ—नीलामी बिक्री की कार्यवाही के समापन पर या हूँ—नीलामी के दिन की समाप्ति के बाद अगले कार्यदिवस उच्चतम बोली राशि (पहले से इंएमडी का भुगतान शामिल है) का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा, जैस उपरांक रूप में निर्देष्ट किया गया है। उच्चतम बोली की शेष शिश का 75 प्रतिशत उस तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिस पर बिक्री की स्वीकृति/पृष्टि कथित सफल बोलीदाता को की गई है या ऐसी विस्तारित अवधि पर, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगी और सरफेसी अधिनयम, 2002 और प्रतिभृति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत हो।
11. उच्चतम बोली लगाने वाले के पास संपित पर कोई अधिकार और स्वामित्व नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा पूरी नीलामी मूल्य और अन्य आक्रिमक खर्चों का भुगतान

करने के बाद बिक्री प्रमाणपत्र उसके पक्ष में जारी नहीं किया जाता है। बिक्री ई—नीलामी के नियमों और शतों के अधीने की जाएगी और उस प्रभाव के लिए आरक्षित लेनदाँर द्वा 12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली / नीलामी की राशि जमा करने में विफल रहता है, तब सफल बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा और

चूककर्ता बोलीदाता द्वारा न तो संपत्ति पर और न ही उसके द्वारा जमा की गई राशि पर दावा किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी नीलामी की जाने वाली संपत्ति/यों के संबंध में उसके पास उपलब्ध सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी एक या उससे अधिक अधिकारों *का प्रयोग करने के* लिए

13. ऊपर निर्दिष्टअवधि तक पूरा बिक्री प्रतिफल प्राप्त करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को ई भी दावे पर विचार नहीं करेगा। 14. बिकी प्रमाण पत्र उसी नाम सेजारी किया जाएगा जिस नाम से बोली प्रस्तत की गई है। बिकी प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति(यों) के नाम शामिल किए जाने के लिए ऐसा को

. अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा सिवाय बोली में उल्लिखित के नाम को छोड़क **15**. असफल बोलीदाता को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा, उनके खातों में, आरटीजीएस/एनईएफटी/वित्त हस्तांतरण के माध्यम से, 10(दस) का

टिवर्सों के भीवर और बिना किसी हमाज के वापस कर दी जाएगी।

विवस्त के मतर और बना किया ब्याज के पापत कर दो जाएगा। 16. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली या अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्वीकार करने या रह करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ई—नीलामी बिक्री को स्थिगित करने/रह करने की स्थिति में, बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोली रह कर दी जाती है, तब प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोलीदाता या अन्य पक्षों से बातचीत कर निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री कर सकता है।

जाती है, तब प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोलीदाता या अन्य पक्षों से बातचीत कर निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री कर सकता है।
17. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक संपत्ति के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, तब बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
18. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण का उल्लेख प्राधिकृत अधिकारी/आरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी में किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/आरक्षित लेनदार इस उदयोषणा में किसी भी बुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
19. कोई मी अन्य गार बेंक को ज्ञात नहीं हैं। इन्कुक बोलीदाता को सलाह वी जाती है कि तब रूपानीय प्राधिकरणों अर्थात् नगरपालिका करों, अनुरक्षण/सोसायटी प्रमारों, विद्युत और जल प्रमारों और अंतरण प्रमारों/शुल्क सहित किसी अन्य देय राशि या करों के बकायों के संबंध में स्वतंत्र जांच करे। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में स्वतंत्र जांच करे। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी आरोप, ग्रहणाधिकार, बाध्यता, या किसी अन्य बनाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी स्वाधिक स्वाधिक है उपस्था संबंध में सरकार या किसी अन्य करें कर के कहारों होता हो स्वाधिक स्वाधिक है उपस्था स्वाधिक स्वधिक स्वाधिक स्

जाती है कि वह सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर के बकाये, विद्युत देय राशियों आदि सहित संपत्ति पर आने वाली बायराओं के संबंध में अपनी स्वतन जांच करे। इस मामले में नीलामी की कार्यवाही के बाद कोई आदेश, बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण तक के किसी भी चरण में और कब्जे को सौंपने के लिए, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकने दे लिए सीमित नहीं है, बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या नुकसान और/या दावों के बिना अब तक जमा किए गए धन को वापस कर देगा और किसी में प्रकार में संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

अगर न स्वार-चर आर्पित हो जाने का आयोजित हैं—मीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जे को सौंपने तक के किसी भी चरण में रोक दिया जाता है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकने तक सीमित नहीं है, तो बोलीदाता को उसके द्वारा या किसी भी द्वारा जमा किए गए ईएमडी /राशि की वापसी का दावा करने का /संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर ब्याज का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और /या नुकसान और /या दावों के ज मा किए गए धन को वापस कर देगा और किसी भी प्रकार में संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. सभी सांविधिक देयताओं / पंजीकरण शुल्कों, स्टॉप शुल्कों, करो आदि का खर्च खरीदार को वहन करना होगा।
22. वर्तमान नोटिस के त हत संपत्ति की नीलामी बनाम बिक्री के संबंध में किये गय सभी खर्चे, शुल्क अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव / सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव / सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य देय राशि या करों सहित हस्तांतरण शुल्क पूर्ण रूप से सफल बोलीदाता /खरीदार द्वारा वहन किये जाएंगे।
23. अन्य सभी आकरिमक शुल्क (जिसमें वर्तमान नीलामी के त हत संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिभूति शुल्क या रखरखाव शुल्क शामिल हैं लेकिन उस तक सीमित नहीं है) केवल बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किये जाएंगे, बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले जिसे मुक्त / प्रतिपूर्ति किया जाना आवश्यक है। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेक पर किसी भी न्यायसंगत और उचित देरी के लिए छूट पर विचार किया जा सकता है, भविष्य के लिये बिना कोई अधिकारिक 24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (रुपए केवल पचास लाख) और उससे अधिक हो जाता है तब

प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री / ने ितामी सख्ती से बिना किसी संरक्षण आधार पर होगी।

25. यदि बैंक की देय राशि, उन पर या उनके द्वारा किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और उसका कोई भाग जैसा बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, जो कर्जदार/सं, गारंटर/सें और/या बुंधकृदाता/ओं की ओर से प्रस्तुत की जाती है, किसी भी समय बिक्री के लिए तय की गुई तारीख से पहले, संपत्ति की नीलामी/बिक्री रह की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी बबर्यन्ता (जा को जार से अर्पुत का जाता है, किस ने समित बढ़ा के एकिस विश्व है। सिख्य से स्टब्स्, समार के मोलाग, किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे वे स्वीकार्य नहीं लगती हैं या स्थिति (रह्न करना या भग/रोकी जा सकती हैं नीलामी की शर्तों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बदल सकता है और उस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा :

नीलामां की शत्तों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बदल सकता है और उस सबध में उसका निर्णय ओतम होगा:
26. उधारकताओं का ध्यान प्रत्यामूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनयम की धारा 13 की उप-धारा 8 के उपबंधों की ओर आकृषित किया
जाता है। यदि बैंक को देय राशियों के साथ-साथ बैंक या उसके हिस्से द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों या आरक्षित मूल्य से अधिक राशि या पारस्परिक बोली के
बाद प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक के लिए स्वीकार्य हो सकता है, उधारकतां / आं / पारंटर/रां / बंधककर्ता / आं की ओर से / अपने एजेंटों द्वारा
खरीदारों / निवेशकों के माध्यम से भी निवेदा / प्रतिबद्ध हैं, उनके द्वारा पहचान की गई, नीलामी/ विक्री के लिए स्विपरित दिनांक पर या उससे पहले या नीलामी की ही दिनांक
को या उच्चतम बोलीदाता की घोषणा सहित बोली लगाने की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले / बाद में और यहां तक कि बिक्री पुष्टिकरण पत्र जारी करने के बाद भी,
लेकिन सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, संपत्ति की नीलामी/ विक्री के लिए अधिकत अधिकारी के विक्रीधिकार पर और बिना कोई कारण बताए रह की ता सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/स्द्व/स्थगित/बंद करने या किसी भी कारण के बिना किसी भी समय अलग—अलग करने का अधिकार रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति—प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए समझा जाएगा और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करना होगा-

27. बोलीदाता ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उसे कथित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। 28. बोलीवाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी; पावर बैंक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए; ई-नीलामी कार्यवाही को प्रमावित करने वाली इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या अन्य कारणों / आकस्मिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 29. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति / यों के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

29. आदंभ निहंत ये के लिम-उंच (उस्तर्भ ने या सिक्री के लिस प्रेसिक) में प्रसिद्ध में एकता ना व्यक्ति से त्यंच में विश्व निवास के हिंग 30. वर्तमान नेटिस बैंक की आदिकारिक वेबसाइट यानी www.kotak.com पर भी अपलोड की गई है और इच्छुक पार्टियां इसे भी देख सकती हैं। 31. यदि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार एजों में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तब ऐसे मामले में अंग्रेजी अखबार स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों मान्य होगा और उसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, तािक अस्पष्टता को दूर किया जा सके। 32. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री विश्वनाचाम अकॉदी (मोबाइल नंबर +91–9667221548) या बैंक के अधिकारी श्री अजय निगम् (मोबाइल नंबर 7291971536) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–8377905113) से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1)

क तहत साावधक 30 दिवस का बिक्री नोटिस कर्जदार/रों , गारंटर/रों और/या बंधकदाता/ओं को एतद्वारा अपने देयताओं का पूर्ण रूप से निर्वहन करने और इस नोटिस की तारीख से 30 (पंद्रह) दिनों के मीतर उपरोक्त ब्याज और खर्चों के साथ देय राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है जिसमें विफल रहने पर ''आरक्षित परिसंपत्ति'' (ऊपर उल्लिखित) ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेच दी जाएगी। स्थान : दिल्ली, दिनांक : 20.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी